



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 370]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 1982/अग्राहयण 17, 1904

No. 370] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 1982/AGRAHAYANA 17, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1982

सं० 265/82-सीमा शुल्क

सा० का० नि० 736 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 131/82 सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982 को अधिकांत करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे माल को जो इससे उपाय सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त पहली अनुसूची कहा गया है) वर्णित माल है, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्बहणीय उतने सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है।

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात—

(क) उक्त पहली अनुसूची के अध्याय 76 के अंतर्गत आने वाले एलुमिनियम को लागू नहीं होगी,

(ख) भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के अधीन इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल की बाधत सहायक सीमाशुल्क से दी गई छूट पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सारणी

क्रम सं०	माल का वर्णन	सहायक सीमाशुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	वह माल जिसकी बाधत भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सूचक अधिसूचना के साथ पठित उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर शून्य या शून्य के 60 प्रतिशत से कम है।	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का बीस प्रतिशत।
2.	वह माल जिसकी बाधत भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सूचक अधिसूचना के साथ पठित उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क :—	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का बीस प्रतिशत।
	(1) किसी विनिर्दिष्ट दर पर है, यथा	

1	2	3	TABLE	4
(2) किसी विनिर्दिष्ट दर या मूल्यानुसार दर में से जो भी, यथास्थिति, न्यून या उच्चतर हो, उस पर है : अथवा, (3) किसी विनिर्दिष्ट दर और मूल्यानुसार दर पर है।			Sl. Description of goods No. Rate of auxiliary duty of customs	
			(1) (2) (3)	
3. कच्चा पेट्रोलियम, जो उच्चपट्टी 9 50 रुपए प्रति टन अनुसूची के शीर्ष सं० 27.09 के अन्तर्गत आता है।			1. Goods in respect of which the rate of duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force, is nil or less than 60 per cent <i>ad valorem</i> .	Twenty per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
4. सोमाचार्यपत्रों, पुस्तकों और विज्ञापन-कालिका पत्रिकाओं के मुद्रण के लिए अक्षरकारी कागज जो उक्त पट्टी अनुसूची के शीर्ष सं० 48.01/21 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत आता है।	275 रुपए प्रति टन		2. Goods in respect of which the duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force, is—  (i) at a specific rate; or  (ii) at a specific rate or <i>ad valorem</i> rate, whichever is less or higher, as the case may be ;or  (iii) at a specific rate and <i>ad valorem</i> rate.	Twenty per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
<p>स्पष्टीकरण :—उपरोक्त सारणी के क्रम सं० 1 के प्रयोजन के लिए, "भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी मुक्तगत अधिसूचना के माध्यम से उक्त पट्टी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मूल्यानुसार की दर" अधिव्यक्ति में उस वस्तु के उद्भव के देश के कारण हो या अधिक भिन्न-भिन्न शुल्क की दरों के दाखिलाधीन किसी वस्तु के संबंध में, शुल्क की वह दर अभिप्रेत है जो उन दरों में उच्चतम है।</p>			3. Crude Petroleum, falling under Rs. 9.50 per tonne. Heading No. 27 09 of the said First Schedule.	
<p>सं० 14/82-सी० आर० नू० (सी० नू० )]</p> <p>MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATIONS New Delhi, the 8th December, 1982 No. 265/82-CUSTOMS</p>			4 News print, falling under sub- Rs. 275 per tonne. heading No. (2) of Heading No. 48.01/21 of the said First Schedule, for printing of newspapers, books and periodicals.	

G.S.R. 736(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 131/82-Customs, dated the 11th May, 1982, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table annexed hereto, being goods mentioned in the First Schedule to the Customs tariff Act 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said First Schedule), when imported into India, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 44 of the said Finance Act, as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

Provided that nothing contained in this notification shall—

- apply to aluminium falling within Chapter 76 of the said First Schedule;
- affect the exemption granted under any other notification of the Government of India for the time being in force, from the auxiliary duty of customs in respect of the goods referred to in this notification.

Explanation.—For the purpose of Sl. No. 1 in the above Table, the expression "the rate of duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force", in relation to any article liable to two or more different rates of duty by reason of the country of origin of that article, means that rate of duty which is the highest of those rates.

[No. S. 14/82-TRU/Cus].

नं० 266/82-सीमाशुल्क

सं० का० नि० 737 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान ही जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि इससे उपाज्ज सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी।

## सारणी

No. 266/82-CUSTOMS

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन	
(1)	(2)	(3)	
1	133/82-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982	उक्त अधिसूचना में -- (क) प्रारंभिक भाग में, "मूल्य के दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे; (ख) उक्त माहौल में, क्रम संख्याक 7 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का खोप किया जाएगा।	
2	135/82-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982	उक्त अधिसूचना से उपपन्न सारणी में, क्रम सं० 2 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियाँ अतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् --	
1	2	3	4
"अ. 73.02	लाह मोलिब्डेनम	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत।"	
3.	136/82-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982	उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं० 127, 162 और 163 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का खोप किया जाएगा।	
4.	138/82-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982	उक्त अधिसूचना में -- (क) प्रारंभिक भाग में, "मूल्य के दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे; (ख) अनुसूची में, क्रम सं० 27, 28, 38 और 49 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का खोप किया जाएगा।	
5.	139/82-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982	उक्त अधिसूचना में, "मूल्य के दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "मूल्य के बीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।	
6.	141/82-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982	उक्त अधिसूचना में, "मूल्य के दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।	
7	145/82-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982	उक्त अधिसूचना में, "मूल्य के दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।	

G.S.R. 737(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. & date	Amendment		
(1)	(2)	(3)		
1.	133/82-Customs, dated the 11th May, 1982.	In the said notification,— (a) in the opening portion, for the words "ten per cent of the value", the words "fifteen per cent of the value" shall be substituted; (b) in the Table, Sl. No. 7 and the entries relating thereto shall be omitted.		
2.	135/82-Customs, dated the 11th May, 1982.	In The Table annexed to the said notification, after Sl. No. 2 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:—		
	1	2	3	4
"2A."	3.02 Ferro-molybdenum	Fifteen per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).".		
3.	136/82-Customs, dated the 11th May, 1982.	In the Schedule to the said notification, Sl. Nos. 127, 162 and 163 and the entries relating thereto shall be omitted.		
4.	138/82-Customs, dated the 11th May, 1982.	In the said notification,— (a) in the opening portion for the words "ten per cent of the value", the words "fifteen per cent of the value" shall be substituted; (b) in the Schedule, Sl. Nos. 27, 28, 38 and 49 and the entries relating thereto shall be omitted.		
5.	139/82-Customs, dated the 11th May, 1982.	In the said notification, for the words "fifteen per cent of the value", the words "twenty per cent of the value" shall be substituted.		

1	2	3
6. 141/82-Customs, dated the 11th May, 1982.	In the said notification, for the words "ten per cent of the value", the words "fifteen per cent of the value" shall be substituted.	
7. 145/82-Customs, dated the 11th May, 1982.	In the said notification, for the words "ten per cent of the value", the words "fifteen per cent of the value" shall be substituted.	

[F. No. S. 14/82-TRU (Cus)]

## सं० 267/82-सीमाशुल्क

सां० कां० नि० 738(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 137/82 सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982 को अधिष्ठापित करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है ऐसे मास को जो भारत सरकार के राजस्व और वैश्विक विभाग या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं के आधार पर जो नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त हैं, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सहायक सीमाशुल्क से जितना, द्वितीय वर्णित अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार व्यवधारित ऐसे मास के मूल्य के परब प्रतिशत से अधिक है, छूट वेती है:

परन्तु उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिसूचना में उल्लिखित किसी मास की बाबत इस अधिसूचना के अधीन छूट ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन होगी जिनके अधीन रहते हुए ऐसा मास उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से ऐसी अधिसूचनाओं के आधार पर भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त है।

## अनुसूची

1. सं० 197-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
2. सं० 240-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
3. सं० 101-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977
4. सं० 114-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977
5. सं० 115-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1987
6. सं० 218-सीमाशुल्क, तारीख 7 अक्टूबर, 1977
7. सं० 49-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
8. सं० 122-सीमाशुल्क, तारीख 12 जून, 1978
9. सं० 243-सीमाशुल्क, तारीख 26 दिसम्बर, 1978
10. सं० 154-सीमाशुल्क, तारीख 4 जुलाई, 1979
11. सं० 86-सीमाशुल्क, तारीख 23 अप्रैल, 1980
12. सं० 95-सीमाशुल्क, तारीख 9 मई, 1980
13. सं० 114-सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1980
14. सं० 118-सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1980

[कां० सं० एस० 14/82-टी० धार० नू० (सी० शु०)]

No. 267/82-CUSTOMS

G.S.R. 738(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of the section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 137/82-Customs, dated the 11th May, 1982, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods which are partially or wholly exempt from the duty of customs specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by virtue of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking or in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in the Schedule below, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 44 of the said Finance Act, as is in excess of five per cent of the value of such goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the first mentioned Act :

Provided that the exemption under this notification with respect to any goods mentioned in any notification specified in the said Schedule shall be subject to the conditions, if any, subject to which such goods are exempt by virtue of such notification either partially or wholly, from the duty of customs specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975.

## SCHEDULE

1. No. 197-Customs, dated the 2nd August, 1976.
2. No. 240-Customs, dated the 2nd August, 1976.
3. No. 101-Customs, dated the 1st July, 1977.
4. No. 114-Customs, dated the 1st July, 1977.
5. No. 115-Customs, dated the 1st July, 1977.
6. No. 218-Customs, dated the 7th October, 1977.
7. No. 49-Customs, dated the 1st March, 1978.
8. No. 122-Customs dated the 21st June, 1978.
9. No. 243-Customs dated the 26th December, 1978.
10. No. 154-Customs, dated the 4th July, 1979.
11. No. 86-Customs, dated the 23rd April, 1980.
12. No. 95-Customs, dated the 9th May, 1980.
13. No. 114-Customs dated the 19th June, 1980.
14. No. 118-Customs, dated the 19th June, 1980.

[F. No. S. 14/82-TRU(Cus).]

## सं० 268/82-सीमाशुल्क

सां० कां० नि० 739(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे मास को जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं के आधार पर जो नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त हैं, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सहायक सीमाशुल्क से जितना द्वितीय वर्णित अधिनियम

की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है;

परन्तु उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिसूचना में उल्लिखित किसी माल की बावत इस अधिसूचना के अधीन छूट ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन होगी जिनके अधीन रहते हुए ऐसा माल उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से ऐसी अधिसूचनाओं के आधार पर आगत या पूर्णतः छूट प्राप्त है।

#### अनुसूची

1. सं० 40-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
2. सं० 41-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
3. सं० 42-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
4. सं० 43-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
5. सं० 45-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
6. सं० 46-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978
7. सं० 14-सीमाशुल्क, तारीख 18 जनवरी, 1979
8. सं० 113-सीमाशुल्क तारीख 23 अप्रैल, 1981

[फा० सं० एम० 14/82-टी आर यू (नं० शु०)]

#### No. 268/82-CUSTOMS

**G.S.R. 739(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods which are partially or wholly exempt from the duty of customs specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975), by virtue of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in the Schedule below, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 44 of the said Finance Act, as is in excess of ten per cent of the value of such goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the first mentioned Act :

Provided that the exemption under this notification with respect to any goods mentioned in any notification specified in the said Schedule shall be subject to the conditions if any, subject to which such goods are exempt by virtue of such notification either partially or wholly, from the duty of customs specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act 1975.

#### SCHEDULE

1. No. 40-Customs, dated the 1st March, 1978.
2. No. 41-Customs, dated the 1st March, 1978.
3. No. 42-Customs, dated the 1st March, 1978.
4. No. 43-Customs, dated the 1st March, 1978.
5. No. 45-Customs dated the 1st March, 1978.
6. No. 46-Customs, dated the 1st March 1978.
7. No. 14-Customs, dated the 18th January, 1979.
8. No. 113-Customs dated the 23rd April, 1981.

[F. No. S 14/82-TRU(Cus.)]

सं० 269/82-सीमाशुल्क

सं० का० नि० 740:— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 140/82-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982 को अधिकांश करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लाकड़ों में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 73.03/05 के अन्तर्गत आने वाले लोहे या इस्पात के पिचलन स्क्रैप को (जो स्टेनलेस स्टील या ताप प्रतिरोधक स्टील से भिन्न है) जब उसका इलेक्ट्रिक आर्कफ्यूरी में प्रयोग के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सहायक सीमाशुल्क से जितना द्वितीय वर्गित अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित, लोहे या इस्पात के पिचलन स्क्रैप के (जो स्टेनलेस स्टील या ताप प्रतिरोधक स्टील से भिन्न है) मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है।

परन्तु यह तब जब कि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आयात किए गए लोहे या इस्पात के पिचलन स्क्रैप का जो स्टेनलेस स्टील या ताप प्रतिरोधक से भिन्न है) वस्तुतः इलेक्ट्रिक आर्क फ्यूरी में प्रयोग किया गया है।

[फा० सं० एम० 14/82-टी आर यू (सं० शु०)]

#### No. 269/82-CUSTOMS

**G.S.R. 740(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 140/82-Customs, dated the 11th May, 1982, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts melting scrap of iron or steel (other than stainless steel or heat resisting steel falling under Heading No. 73.03/05 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for use in electric arc furnace from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 44 of the said Finance Act as is in excess of five per cent of the value of such melting scrap of iron or steel (other than stainless steel or heat resisting steel) as determined in accordance with the provisions of section 14 of the first mentioned Act :

Provided that the proper officer is satisfied that the imported melting scrap of iron or steel (other than stainless steel or heat resisting steel) is in fact used in electric arc furnace.

[F. No. S.14/82-TRU(Cus.)]

सं० 270/82-सीमाशुल्क

सं० का० नि० 741 (घ) :— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 144/82-सीमाशुल्क, तारीख 11 मई, 1982 को अधिकांश करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोहा में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,

TABLE

सामग्री			
क्रम सं०	माल का वर्णन	संबंधित सामान्यता की दर	
(1)	(2)	(3)	
1	टिन-प्लेट अपशिष्ट के अपशिष्ट	सामान्यता अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का 15 प्रतिशत	1. Tinplate waste waste 15 per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
2	कलई रहित लेपित इस्पात पत्र	सामान्यता अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का 10 प्रतिशत	2. Tin-free coated steel sheets 10 per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
3	शीर्ष सं० 73.15 के उपबोध सं० (1) के अन्तर्गत आने वाले शीतलेनित विद्युत इस्पात पत्र चह्निरेण दिष्ट हैं। या नहीं	सामान्यता अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का 5 प्रतिशत	3. Cold rolled electrical steel sheets, grain-oriented or not, falling under sub-heading No. (1) of Heading No 73.15. 5 percent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act 1962 (52 of 1962).
4	स्टैनलेस स्टील या ताप-रोधक स्टील के पिघलाने के स्क्रैप	सामान्यता अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का 5 प्रतिशत	4. Melting scrap of stainless steel or heat resisting steel. 5 percent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act 1962 (52 of 1962).

[F. No S. 14/82-TRU (CuS)]

[F. No. S. 14/82-TRU (CuS)]

[फा० एम० 14/82-टी आर य० सी० शु० )]

स० २७१/८२ सीमा शुल्क

## No. 270/82-CUSTOMS

**G.S.R. 741(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982 (14 of 1982) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 144/82 Customs, dated the 11th May, 1982, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table below and falling within Chapter 73 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 44 of the said Finance Act as is in excess of the rate specified in the corresponding entry of column (3) of the said Table

सर्गो कां० मि० 742 (अ) - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1982 (1982 का 14) की धारा 44 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की प्रवृत्तिनाम 146/82-सीमाशुल्क तारीख 11 मई, 1982 की अधिकल्पन करने हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि वास्तव में ऐसा करना आवश्यक है, दूसरे उपाय के साधनों के स्वयं (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उस अध्याय के जो उक्त साधनों के स्वयं (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अंतर्गत आने वाले माल को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्घरण्य उत्तरे, सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है जिनका उक्त साधनों के स्वयं (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है।

## सारणी

क्रम	सीमाशुल्क	माल का वर्णन	सहायक सीमा शुल्क को दर
म०	टैरिफ अधिनियम, 1975	की पहली अनुसूची का अध्याय सं०	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	26	शीर्ष सं० 26.01 के अन्तर्गत आने वाले सीमा शुल्क (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का दस प्रतिशत	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का दस प्रतिशत
2.	39	शीर्ष सं० 39.01/06 के अन्तर्गत आने वाले निम्न घनत्व और अधिक घनत्व वाले पानी पश्चिमी माउल्टिंग पाऊंडर और ग्रैनुल	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का दस प्रतिशत
3.	39	शीर्ष सं० 39.01/06 के अन्तर्गत आने वाली पॉलिथीन	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पच्चीस प्रतिशत
4.	51	शीर्ष सं० 51.01/03 के अन्तर्गत आने वाला 600 डेनियर्स से कम का विस्कोस तंतु सूत और कप्रासोनियम तंतु सूत	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का दस प्रतिशत
5.	32	शीर्ष सं० 32.06 के अन्तर्गत आने वाले गैर-जिनके अन्तर्गत विद्युत श्रवण सहाय यंत्र नहीं हैं।	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का दस प्रतिशत
6.	90	शीर्ष सं० 90.19 के अन्तर्गत आने वाले माल जिनके अन्तर्गत विद्युत श्रवण सहाय यंत्र नहीं हैं।	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल का पाँच प्रतिशत

[फा० सं० एल० 14/82-टी आर यू (सी० शु०)]

## No. 271/82-CUSTOMS

G.S.R. 742(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and with sub-section (4) of section 44 of the Finance Act, 1982

(14 of 1982), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 146/82-Customs, dated the 11th May, 1982, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling within the Chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 44 of the said Finance Act, as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

Sl. Chap	Description of goods	Rate of auxiliary duty of customs
No. -ter	No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	
(1)	(2)	(3)
1. 26	Lead concentrates falling under Heading No. 26.01.	Ten per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962).
2. 39	Low density and medium density polyethylene moulding powder and granules falling under Heading No. 39.01/06	Twenty per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
3. 39	Polypropylene falling under Heading No. 39.01/06	Twenty five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
4. 51	Viscose filament yarn below 600 deniers and cuprammonium filament yarn falling under Heading No. 51.01/03	Ten per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
5. 82	Blades for leather shaving machine (Hydraulic falling under Heading No. 82.06	Ten per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

(1)	(2)	(3)	(4)
			sions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)
6	90	Goods falling under Heading No. 90 19 excluding electric heating aids.	Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. S.14/82-TRU (Cas.)]

सं० 272/82-सीमा शुल्क

सा० का० नि० 743 (अ) :- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित

में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को निरस्त करने के, धर्तीत :-

- (1) अधिसूचना सं० 88-सीमाशुल्क, तारीख 18 जून, 1977
- (2) अधिसूचना सं० 91-सीमाशुल्क, तारीख 18 जून, 1977

[का० सं० एस 15/82-टी आर यू (सी० शु०)]

जे० श्रीधरन, अवर सचिव

#### No. 272/82-CUSTOMS

**G.S.R. 743(E).**—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, namely:—

- (1) Notification No. 89-Customs, dated the 18th June, 1977.
- (2) Notification No. 91-Customs, dated the 18th June, 1977.

[F. No. S/15/82-TRU(Cus.)]

J. SRIDHARAN, Under Secy.